



Raushan kumar

22 Dec 2003

03:32 AM

Patan

Model: Web-MyKundli

Order No: 121181101

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 21-22/12/2003
दिन _____: रवि-सोमवार
जन्म समय _____: 03:32:00 घंटे
इष्ट _____: 52:29:42 घटी
स्थान _____: Patan
राज्य _____: Bihar
देश _____: India

अक्षांश _____: 24:14:00 उत्तर
रेखांश _____: 84:12:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: 00:06:48 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 03:38:48 घंटे
वेलान्तर _____: 00:02:12 घंटे
साम्पातिक काल _____: 09:39:03 घंटे
सूर्योदय _____: 06:32:07 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:10:05 घंटे
दिनमान _____: 10:37:58 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: हेमन्त
सूर्य के अंश _____: 05:42:28 धनु
लग्न के अंश _____: 25:09:04 तुला

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: तुला - शुक्र
राशि-स्वामी _____: वृश्चिक - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: अनुराधा - 4
नक्षत्र स्वामी _____: शनि
योग _____: शूल
करण _____: विष्टि
गण _____: देव
योनि _____: मृग
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: कीटक
वर्ग _____: सर्प
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: ने-नैनसुख
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: धनु

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1925	पौष	1
पंजाबी	संवत : 2060	पौष	7
बंगाली	सन् : 1410	पौष	6
तमिल	संवत : 2060	मार्गड़ी	7
केरल	कोल्लम : 1179	धनु	7
नेपाली	संवत : 2060	पौष	7
चैत्रादि	संवत : 2060	पौष	कृष्ण 14
कार्तिकादि	संवत : 2060	मार्गशीर्ष	कृष्ण 14

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 13
तिथि समाप्ति काल _____ : 22:22:52
जन्म तिथि _____ : 14
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : विशाखा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 09:20:36 घंटे
जन्म योग _____ : अनुराधा
सूर्योदय कालीन योग _____ : धृति
योग समाप्ति काल _____ : 21:54:59 घंटे
जन्म योग _____ : शूल
सूर्योदय कालीन करण _____ : गर
करण समाप्ति काल _____ : 12:05:59 घंटे
जन्म करण _____ : विष्टि
भयात _____ : 45:28:32
भभोग _____ : 53:11:11
भोग्य दशा काल _____ : शनि 2 वर्ष 9 मा 5 दि

घात चक्र


मास _____ : आश्विन
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : रेवती
योग _____ : व्यतिपात
करण _____ : गर
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : गरुड़
लग्न _____ : वृश्चिक
सूर्य _____ : मकर
चन्द्र _____ : वृष
मंगल _____ : कुम्भ
बुध _____ : वृश्चिक
गुरु _____ : मीन
शुक्र _____ : मेष
शनि _____ : कर्क
राहु _____ : वृष

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

मं	रा		श
शु			गु
बु सू	चं	के ल	

लग्न कुंडली

	रा	मं
श		
		शु
गु	ल के	सू बु चं

विंशोत्तरी
शनि 2वर्ष 9मा 5दि
शनि

22/12/2003

28/09/2107

शनि	27/09/2006
बुध	27/09/2023
केतु	27/09/2030
शुक्र	27/09/2050
सूर्य	26/09/2056
चन्द्र	27/09/2066
मंगल	27/09/2073
राहु	27/09/2091
गुरु	28/09/2107

योगिनी

भ्रामरी 0वर्ष 6मा 30दि
संकटा

22/07/2022

22/07/2030

संकटा	01/05/2024
मंगला	21/07/2024
पिंगला	31/12/2024
धान्या	31/08/2025
भ्रामरी	22/07/2026
भद्रिका	01/09/2027
उल्का	31/12/2028
सिद्धा	22/07/2030


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			तुला	25:09:04	315:11:26	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	बुध	---
सूर्य			धनु	05:42:28	01:01:08	मूल	2	19	गुरु	केतु	राहु	मित्र राशि
चंद्र			वृश्चि	14:43:33	15:05:36	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	राहु	नीच राशि
मंगल			मीन	09:13:17	00:35:23	उ०भाद्रपद	2	26	गुरु	शनि	शुक्र	मित्र राशि
बुध	व	अ	धनु	16:56:25	00:48:38	पूर्वाषाढा	2	20	गुरु	शुक्र	चंद्र	सम राशि
गुरु			सिंह	24:43:18	00:02:29	पू०फाल्गुनी	4	11	सूर्य	शुक्र	बुध	मित्र राशि
शुक्र			मक	06:53:17	01:14:04	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	बुध	मित्र राशि
शनि	व		मिथु	16:40:05	00:04:49	आर्द्रा	4	6	बुध	राहु	शुक्र	मित्र राशि
राहु	व		मेष	26:01:53	00:02:31	भरणी	4	2	मंगल	शुक्र	केतु	शत्रु राशि
केतु	व		तुला	26:01:53	00:02:31	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	केतु	सम राशि
हर्ष			कुंभ	05:46:15	00:02:06	धनिष्ठा	4	23	शनि	मंगल	चंद्र	---
नेप			मक	17:27:24	00:01:49	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	शनि	---
प्लूटो			वृश्चि	26:12:51	00:02:15	ज्येष्ठा	3	18	मंगल	बुध	गुरु	---
दशम भाव			कर्क	28:29:32	--	आश्लेषा	--	9	चंद्र	बुध	शनि	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:54:32


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	तुला 10:42:29	तुला 25:09:04
2	वृश्चिक 10:42:29	वृश्चिक 26:15:53
3	धनु 11:49:18	धनु 27:22:43
4	मकर 12:56:07	मकर 28:29:32
5	कुम्भ 12:56:07	कुम्भ 27:22:43
6	मीन 11:49:18	मीन 26:15:53
7	मेष 10:42:29	मेष 25:09:04
8	वृष 10:42:29	वृष 26:15:53
9	मिथुन 11:49:18	मिथुन 27:22:43
10	कर्क 12:56:07	कर्क 28:29:32
11	सिंह 12:56:07	सिंह 27:22:43
12	कन्या 11:49:18	कन्या 26:15:53


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	तुला	25:09:04
2	वृश्चिक	24:32:09
3	धनु	25:44:27
4	मकर	28:29:32
5	मीन	00:43:44
6	मीन	29:49:24
7	मेष	25:09:04
8	वृष	24:32:09
9	मिथुन	25:44:27
10	कर्क	28:29:32
11	कन्या	00:43:44
12	कन्या	29:49:24


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद
उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु
पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शनि 2 वर्ष 9 मास 5 दिन

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष
22/12/2003	27/09/2006	27/09/2023	27/09/2030	27/09/2050
27/09/2006	27/09/2023	27/09/2030	27/09/2050	26/09/2056
00/00/0000	बुध 22/02/2009	केतु 23/02/2024	शुक्र 26/01/2034	सूर्य 14/01/2051
00/00/0000	केतु 20/02/2010	शुक्र 24/04/2025	सूर्य 27/01/2035	चंद्र 16/07/2051
00/00/0000	शुक्र 21/12/2012	सूर्य 30/08/2025	चंद्र 26/09/2036	मंगल 21/11/2051
00/00/0000	सूर्य 27/10/2013	चंद्र 31/03/2026	मंगल 26/11/2037	राहु 15/10/2052
00/00/0000	चंद्र 28/03/2015	मंगल 27/08/2026	राहु 26/11/2040	गुरु 03/08/2053
00/00/0000	मंगल 25/03/2016	राहु 15/09/2027	गुरु 28/07/2043	शनि 16/07/2054
22/12/2003	राहु 12/10/2018	गुरु 21/08/2028	शनि 27/09/2046	बुध 22/05/2055
राहु 15/03/2004	गुरु 17/01/2021	शनि 30/09/2029	बुध 28/07/2049	केतु 27/09/2055
गुरु 27/09/2006	शनि 27/09/2023	बुध 27/09/2030	केतु 27/09/2050	शुक्र 26/09/2056

चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष
26/09/2056	27/09/2066	27/09/2073	27/09/2091	28/09/2107
27/09/2066	27/09/2073	27/09/2091	28/09/2107	00/00/0000
चंद्र 28/07/2057	मंगल 23/02/2067	राहु 09/06/2076	गुरु 14/11/2093	शनि 01/10/2110
मंगल 26/02/2058	राहु 12/03/2068	गुरु 02/11/2078	शनि 28/05/2096	बुध 10/06/2113
राहु 28/08/2059	गुरु 16/02/2069	शनि 08/09/2081	बुध 02/09/2098	केतु 20/07/2114
गुरु 27/12/2060	शनि 28/03/2070	बुध 28/03/2084	केतु 09/08/2099	शुक्र 18/09/2117
शनि 28/07/2062	बुध 25/03/2071	केतु 15/04/2085	शुक्र 10/04/2102	सूर्य 31/08/2118
बुध 27/12/2063	केतु 22/08/2071	शुक्र 15/04/2088	सूर्य 28/01/2103	चंद्र 01/04/2120
केतु 27/07/2064	शुक्र 21/10/2072	सूर्य 10/03/2089	चंद्र 29/05/2104	मंगल 11/05/2121
शुक्र 28/03/2066	सूर्य 25/02/2073	चंद्र 09/09/2090	मंगल 04/05/2105	राहु 23/12/2123
सूर्य 27/09/2066	चंद्र 27/09/2073	मंगल 27/09/2091	राहु 28/09/2107	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शनि 2 वर्ष 9 मा 2 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

केतु - चंद्र 30/08/2025 31/03/2026	केतु - मंगल 31/03/2026 27/08/2026	केतु - राहु 27/08/2026 15/09/2027	केतु - गुरु 15/09/2027 21/08/2028	केतु - शनि 21/08/2028 30/09/2029
चंद्र 17/09/2025 मंगल 29/09/2025 राहु 31/10/2025 गुरु 29/11/2025 शनि 01/01/2026 बुध 01/02/2026 केतु 13/02/2026 शुक्र 21/03/2026 सूर्य 31/03/2026	मंगल 09/04/2026 राहु 01/05/2026 गुरु 21/05/2026 शनि 14/06/2026 बुध 05/07/2026 केतु 14/07/2026 शुक्र 07/08/2026 सूर्य 15/08/2026 चंद्र 27/08/2026	राहु 24/10/2026 गुरु 14/12/2026 शनि 13/02/2027 बुध 08/04/2027 केतु 30/04/2027 शुक्र 03/07/2027 सूर्य 23/07/2027 चंद्र 24/08/2027 मंगल 15/09/2027	गुरु 30/10/2027 शनि 23/12/2027 बुध 10/02/2028 केतु 29/02/2028 शुक्र 26/04/2028 सूर्य 13/05/2028 चंद्र 11/06/2028 मंगल 01/07/2028 राहु 21/08/2028	शनि 24/10/2028 बुध 20/12/2028 केतु 13/01/2029 शुक्र 21/03/2029 सूर्य 11/04/2029 चंद्र 14/05/2029 मंगल 07/06/2029 राहु 07/08/2029 गुरु 30/09/2029
केतु - बुध 30/09/2029 27/09/2030	शुक्र - शुक्र 27/09/2030 26/01/2034	शुक्र - सूर्य 26/01/2034 27/01/2035	शुक्र - चंद्र 27/01/2035 26/09/2036	शुक्र - मंगल 26/09/2036 26/11/2037
बुध 20/11/2029 केतु 11/12/2029 शुक्र 09/02/2030 सूर्य 28/02/2030 चंद्र 30/03/2030 मंगल 20/04/2030 राहु 13/06/2030 गुरु 31/07/2030 शनि 27/09/2030	शुक्र 18/04/2031 सूर्य 18/06/2031 चंद्र 27/09/2031 मंगल 07/12/2031 राहु 07/06/2032 गुरु 16/11/2032 शनि 28/05/2033 बुध 16/11/2033 केतु 26/01/2034	सूर्य 14/02/2034 चंद्र 16/03/2034 मंगल 06/04/2034 राहु 31/05/2034 गुरु 19/07/2034 शनि 15/09/2034 बुध 05/11/2034 केतु 27/11/2034 शुक्र 27/01/2035	चंद्र 18/03/2035 मंगल 23/04/2035 राहु 23/07/2035 गुरु 12/10/2035 शनि 17/01/2036 बुध 12/04/2036 केतु 17/05/2036 शुक्र 27/08/2036 सूर्य 26/09/2036	मंगल 21/10/2036 राहु 24/12/2036 गुरु 19/02/2037 शनि 27/04/2037 बुध 27/06/2037 केतु 22/07/2037 शुक्र 01/10/2037 सूर्य 22/10/2037 चंद्र 26/11/2037
शुक्र - राहु 26/11/2037 26/11/2040	शुक्र - गुरु 26/11/2040 28/07/2043	शुक्र - शनि 28/07/2043 27/09/2046	शुक्र - बुध 27/09/2046 28/07/2049	शुक्र - केतु 28/07/2049 27/09/2050
राहु 10/05/2038 गुरु 03/10/2038 शनि 25/03/2039 बुध 28/08/2039 केतु 31/10/2039 शुक्र 30/04/2040 सूर्य 24/06/2040 चंद्र 23/09/2040 मंगल 26/11/2040	गुरु 05/04/2041 शनि 06/09/2041 बुध 22/01/2042 केतु 20/03/2042 शुक्र 29/08/2042 सूर्य 17/10/2042 चंद्र 06/01/2043 मंगल 04/03/2043 राहु 28/07/2043	शनि 27/01/2044 बुध 09/07/2044 केतु 15/09/2044 शुक्र 26/03/2045 सूर्य 23/05/2045 चंद्र 28/08/2045 मंगल 03/11/2045 राहु 26/04/2046 गुरु 27/09/2046	बुध 20/02/2047 केतु 22/04/2047 शुक्र 11/10/2047 सूर्य 02/12/2047 चंद्र 26/02/2048 मंगल 27/04/2048 राहु 29/09/2048 गुरु 14/02/2049 शनि 28/07/2049	केतु 22/08/2049 शुक्र 01/11/2049 सूर्य 22/11/2049 चंद्र 27/12/2049 मंगल 21/01/2050 राहु 26/03/2050 गुरु 22/05/2050 शनि 28/07/2050 बुध 27/09/2050

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	4
भाग्यांक	3
मित्र अंक	1, 4, 6, 3
शत्रु अंक	7, 8
शुभ वर्ष	22,31,40,49,58
शुभ दिन	शनि, बुध, शुक्र
शुभ ग्रह	शनि, बुध, शुक्र
मित्र राशि	कर्क, सिंह
मित्र लग्न	मकर, मिथुन, सिंह
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	हीरा
शुभ उपरत्न	जरकिन, ओपल
भाग्य रत्न	पन्ना
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	रजत
शुभ दिशा	दक्षिणपूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मिसरी, दधि, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दूध

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
नीलम	शनि	100%	भाग्योदय, सुख, सन्तति सुख
लहसुनिया	केतु	77%	स्वास्थ्य, सुख
हीरा	शुक्र	73%	सुख, दुर्घटना से बचाव, स्वास्थ्य
पन्ना	बुध	67%	पराक्रम, भाग्योदय, कम खर्च
मोती	चंद्र	66%	धन, व्यावसायिक उन्नति
पुखराज	गुरु	52%	धनार्जन, पराक्रम, शत्रु व रोग मुक्ति
माणिक्य	सूर्य	41%	पराक्रम हानि, हानि
गोमेद	राहु	28%	दाम्पत्य कष्ट, शत्रु व रोग
मूंगा	मंगल	9%	शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट, धन हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शनि	27/09/2006	16%	53%	0%	73%	52%	80%	100%	41%	64%
बुध	27/09/2023	52%	53%	9%	80%	52%	80%	100%	28%	77%
केतु	27/09/2030	16%	53%	22%	67%	52%	80%	92%	3%	89%
शुक्र	27/09/2050	16%	53%	9%	73%	52%	86%	100%	41%	83%
सूर्य	26/09/2056	58%	72%	22%	67%	58%	61%	92%	3%	64%
चंद्र	27/09/2066	52%	78%	9%	73%	52%	73%	100%	3%	64%
मंगल	27/09/2073	52%	72%	34%	55%	58%	73%	100%	3%	83%
राहु	27/09/2091	16%	53%	0%	67%	52%	80%	100%	52%	64%
गुरु	28/09/2107	52%	72%	22%	55%	64%	61%	100%	28%	77%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	22/12/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025	-----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	16/01/2076-11/07/2076 11/10/2076-15/01/2079	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	12/04/2081-03/08/2081 07/01/2082-20/03/2084	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

फल

शुभ
शुभ
अशुभ
शुभ
शुभ

क्षेत्र

भाग्योदय
स्वास्थ्य
धन
पराक्रम
सन्तति सुख

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव शत्रु रोग, ऋण आदि का प्रतिनिधि भाव है अतः इस भाव में मंगल के प्रभाव से आप एक पराकमी पुरुष होंगे तथा शत्रु वर्ग को पराजित करने में समर्थ रहेंगे साथ ही शरीर में रोगाभाव रहेगा तथा सामान्यतया आप स्वस्थ ही रहेंगे। आप पराकमी एवं कठोर कार्यों को करने में रुचिशील रहेंगे। अतः आप पुलिस सेना या अन्य पराकमी विभागों में कार्यरत भी हो सकते हैं। जीवन में आपको ऋण अल्प मात्रा में ही लेना पड़ेगा तथा यदि लेना भी पड़ा तो आप इसे वापस देने में समर्थ रहेंगे जिससे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनी रहेगी। साथ ही आप जीवन में इच्छित धन ऐश्वर्य एवं लाभ भी अर्जित करेंगे। आपके प्रभावी व्यक्तित्व से अन्य जन आपसे प्रभावित रहेंगे।

षष्ठ भाव से नवम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि के प्रभाव से आप धर्म या धार्मिक कार्यों पर अल्प मात्रा में ही रुचि रखेंगे साथ ही भाग्य की अपेक्षा आप कर्म पर अधिक विश्वास करेंगे। अतः आपके सांसारिक कार्यों की सिद्धि भाग्य बल की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक कार्य करने से ही पूर्ण होगी। द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि के प्रभाव से आपका व्यय अधिक होगा। साथ ही यदा कदा आपको शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधानों का भी सामना करना पड़ेगा परन्तु दाम्पत्य सुख का आप सामान्य रूप से उपभोग करने में समर्थ रहेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप समय समय पर गर्मी या रक्त विकार संबंधी परेशानी की अनुभूति करेंगे लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप अपने कार्यों को उत्साह पराकम एवं परिश्रम से सम्पन्न करके उनमें इच्छित सफलताएं अर्जित करेंगे।

इस प्रकार षष्ठ भावस्थ मंगल की स्थिति आपके लिए सामान्यतया अच्छी रहेगी जिसके प्रभाव से आप धनऐश्वर्य से युक्त रहेंगे तथा अपने परिवार का आधुनिक परिवेश में

लालन पालन करने में समर्थ होंगे जिससे पारिवारिक सुख शान्ति बनी रहेगी तथा पारिवारिक जनों से आप पूर्ण सहयोग सुख एवं सम्मान प्राप्त होगा। अतः आप प्रसन्नता पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरांत पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- सूर्य पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है ।
- नवम् भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य और बुध के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें । रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं ।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो

आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

तृतीय भाव में सूर्य हो तो जातक, सरकार से सम्मान प्राप्त, कवि, भाई और सम्बन्धियों के कारण दुःखी, पराकमी, प्रतापशाली, लब्धप्रतिष्ठ एवं बलवान् होता है।

धनु राशि में रवि हो तो जातक विवेकी, योगमार्गरत, बुद्धिमान्, धनी, आस्तिक, व्यवहार कुशल, दयालु, शान्त, लोकप्रिय एवं शीघ्र क्रोधित होने वाला होता है।

आपके जन्म काल में सूर्य तृतीय भाव में स्थित है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा यदा कदा ही शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। साथ ही उनकी आयु भी उत्तम रहेगी। पिता से आप जीवन में समस्त शुभकार्यों में सहयोग प्राप्त करेंगे। साथ ही आप में शक्ति, साहस एवं पराक्रम बढ़ाने के लिए वे नित्य यत्नशील रहेंगे। धन सम्पत्ति से वे सर्वदा युक्त रहेंगे तथा अवसरानुकूल आपको उचित उपदेश तथा निर्देश भी देते रहेंगे।

आप भी उनके प्रति हार्दिक स्नेह एवं सम्मान का भाव रखेंगे तथा प्रायः उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध भी कुछ मतभेदों को छोड़कर सामान्य रूप से मधुर ही रहेंगे। उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा जीवन में उनको पूर्ण आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग प्रदान करते रहेंगे जिससे उन्हें कोई दुःख या कष्ट न हो। इस प्रकार आप एक दूसरे के लिए सामान्यतया शुभ ही समझे जाएंगे।

चन्द्र

द्वितीयभाव में चन्द्रमा हो तो जातक परदेशवासी, भोगी, सुन्दर मधुरभाषी, भाग्यवान्, सहनशील एवं शान्तिप्रिय होता है।

वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो जातक अपने माता-पिता, भाइयों आदि से अलग रहने वाला, नास्तिक, लोभी, बन्धुहीन, परस्त्रीरत, झगड़ालू, स्पष्ट वक्ता, बुरे विचार रखने वाले, दुःखी, हठी, अनैतिक विचारों वाला एवं धनी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं कोई विशेष शारीरिक रुग्णता नहीं रहेगी। वे आपको हमेशा धनार्जन एवं विद्याध्ययन संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आपकी पारिवारिक उन्नति एवं पालन करने में भी उनकी मुख्य भूमिका रहेगी यदा कदा वे आपको नैतिक शिक्षा भी देंगी तथा आपके प्रति उनके हृदय में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। इसके साथ ही जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि आप उनके सहयोग से ही करेंगे।

आप की भी माता के प्रति हादिक श्रद्धा रहेगी एवं उनकी आज्ञा पालन करने में आप गौरव की अनुभूति करेंगे। साथ ही जीवन में सर्वप्रकार से उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा समयानुसार उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते रहेंगे। अतः आपकी

परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं जीवन में एक दूसरों की सहायता एवं सहयोग का आदान प्रदान करके सुखानुभूति करेंगे।

मंगल

छठेभाव में मंगल हो तो जातक बलवान्, धैर्यशाली, प्रबल जठराग्नि, कुलवन्त, प्रचण्ड शक्ति, शत्रुहन्ता, ऋणी, दादरोगी, कोधी, पुलिस अफसर, व्रण और रक्तविकार युक्त एवं अधिकव्यय करने वाला होता है।

मीन राशि में मंगल हो तो जातक गौरवर्ण, कामुक, आज्ञाकारी गन्दा, अस्थिर जीवन, रोगी, प्रवासी, मान्त्रीक, बन्धु-द्वेषी, नास्तिक, हठी, धूर्त और वाचाल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल छठे भाव में है अतः भाईयों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं समय समय पर वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। धन सम्पत्ति का उनके पास अभाव नहीं रहेगा एवं आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह एवं सम्मान का भाव रहेगा। जीवन में वे समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों तथा क्षेत्र में आपको अपना वांछित सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे एवं अपनी ओर से आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगे। साथ ही शत्रुवर्ग से भी वे आपकी नित्य रक्षा करने में तत्पर रहेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह का भाव रहेगा एवं हमेशा उनको अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी आपसी संबंध मधुर रहेंगे तथा यदा कदा सामान्य रूप से मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में क्षणिक तनाव की स्थिति रहेगी परन्तु कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप सुख दुःख में उनकी वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार से भी सहयोग देंगे एवं यत्नपूर्वक उनकी भलाई करने में तत्पर रहेंगे।

बुध

तृतीयभाव में बुध हो तो जातक सद्गुणी, कार्यदक्ष, परिश्रमी, मित्रप्रेमी, भीरु, धर्मात्मा, यात्राशील, व्यवसायी, चंचल, अल्पभ्रातृवान्, विलासी, सन्ततिवान्, कवि, सम्पादक, सामुद्रिकशास्त्र का ज्ञाता एवं लेखक होता है।

धनु राशि में बुध हो तो जातक विद्वान्, समाज में सम्मानित, गुणी, सुगठित शरीर, अविवेकी, अच्छा संगठनकर्ता, चतुर, ईमानदार, उदार, प्रसिद्ध, राजमान्य, लेखक, सम्पादक एवं वक्ता होता है।

गुरु

ग्यारहवें भाव में गुरु हो तो जातक व्यवसायी, धनिक, सन्तोषी, सुन्दरनिरोगी, लाभवान्, पराकमी, सद्ब्ययी, बहुस्त्रीयुक्त, विद्वान् राजपूज्य एवं अल्पसन्ततिवान् होता है।

सिंह राशि में गुरु हो तो जातक धार्मिक, प्रेमी, कार्यकुशल, सभाचतुर शत्रुजित्,

आकर्षकव्यक्तित्व, उच्चाकांक्षी, सक्रिय, सुखी, कुशाबुद्धि साहित्य की ओर झुकाव, लेखक एवं उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है।

शुक्र

चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक बलवान्, परोपकारी, सुन्दर, व्यवहार कुशल, विलासी, दीर्घायु, पुत्रवान्, भाग्यवान्, सुखी, दानी, वाहनों का स्वामी एवं आस्तिक होता है।

मकर राशि में शुक्र हो तो जातक बलहीन, कृपण, घ्यरोगी, दुखी, मानी, नीच जाति की स्त्रियों में रुचि, सिद्धान्तहीन एवं अनैतिक चरित्र होता है।

शनि

नवम भाव में शनि हो तो जातक धर्मात्मा, साहसी, प्रवासी, कृशदेही, भीरु, भ्रातृहीन, शत्रुनाशक रोगी वातरोगी, भ्रमणशील एवं वाचाल होता है।

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक दुराचारी, कपटी, कामी, पाखण्डी, निर्धन, दुःखी एवं संकीर्ण मन वाला होता है।

राहु

सप्तम भाव में राहु हो तो चतुर, लोभी, दुराचारी, दुष्कर्मी वातरोगजनक, भ्रमणशील, व्यापार से हानिदायक एवं स्त्रीनाशक होता है।

मेष राशि में राहु हो तो जातक-पराक्रमहीन, आलसी, अविवेकी एवं अनैतिक चरित्र होता है।

केतु

लग्न (प्रथम) में केतु हो तो जातक चंचल मूर्ख दुराचारी, भीरु तथा वृश्चिक राशि में हो तो सुखकारक, धनी एवं परिश्रमी होता है।

तुला राशि में केतु हो तो जातक कुष्ठरोगी, दुःखी, क्रोधी एवं कामी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- केतु
(27/09/2023 - 27/09/2030)

केतु की महादशा 27/09/2023 को आरम्भ और 27/09/2030 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में केतु प्रथम भाव में है। केतु की सप्तम भाव पर दृष्टि है। इसके पूर्व आपकी 17 वर्ष की बुध दशा चल रही थी। बुध के फलस्वरूप आपकी छोटी यात्राएं, कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याएँ, विरोधियों पर विजय और संबंधियों से लाभ हुआ होगा। केतु की इस दशा में आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि होगी, सम्पत्ति मिलेगी और कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याएं होंगी।

स्वास्थ्य :

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संक्रामक रोग, फोड़ा-फुंसी, ज्वर, घाव, सरदर्द आदि कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। ये सभी बीमारियाँ मौसम में परिवर्तन के कारण होंगी और दशा में प्रगति के साथ-साथ आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। कुछ सावधानियाँ बरत कर आप इनसे बच सकते हैं। अन्यथा आप साहसी और शक्तिशाली होंगे।

अर्थ और व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति सन्तोष जनक रहेगी। विदेशी सूत्रों तथा व्यापार से धन संग्रह होगा। साझेदारी का कारोबार लाभदायक सिद्ध होगा। किन्तु, कुछ सावधानी बरतनी होगी क्योंकि विरोधी हावी हो सकते हैं। जीविका के रूप में उद्योग, कृषि, चिकित्सा, सर्जरी, भवन निर्माण आदि का चयन कर सकते हैं। रसायन, चमड़ा, मशीनरी, औजार, लोहा और इस्पात का व्यापार अनुकूल होगा। नौकरीपेशा लोगों का परिवर्तन, स्थानान्तरण और कार्य में अप्रत्याशित परिवर्तन होगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों का स्थान परिवर्तन और कुछ मामूली नुकसान हो सकता है। आपका कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। दशा में प्रगति के साथ-साथ स्थिति सुधरेगी।

वाहन, यात्रा, जायदाद :

चन्द्र की अन्तर्दशा में आपको वाहन सुख मिलेगा। इस दशा के दौरान आपको अचल सम्पत्ति तथा जमीन-जायदाद की प्राप्ति भी होगी। इस पूरी दशा में छोटी यात्रा की सम्भावना है जबकि गुरु की अन्तर्दशा में लम्बी यात्रा होगी।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी उत्तम तकनीकी शिक्षा होगी। आप कम्प्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी परीक्षाओं ओर प्रतियोगिताओं में सफल होंगे। दर्शन शास्त्र और गुप्त विज्ञान तथा इन्जीनियरिंग, विज्ञान, शरीर-विज्ञान, दवा आदि में आपकी रुचि हो सकती है। आप साहसी तथा आत्मविश्वासी हैं और आपकी शिक्षण-वृत्ति उत्तम होगी।

परिवार :

आपका पारिवारिक जीवन-उत्तम होगा। आपको बच्चों से सुख मिलेगा। आपके जीवन साथी को कुछ बाधाएं, यात्रा और साझेदारों से लाभ हो सकता है। आपको परिवार में मेल-मिलाप बनाये रखने के लिए कौशल तथा धैर्य से काम लेना होगा। आपकी माता को यश तथा ख्याति मिलेगी और आध्यात्मिक कार्यों में उनकी रुचि होगी। आपके पिता को सम्मान की प्राप्ति होगी और यात्रा, कुछ व्यय तथा बच्चों के साथ समस्या होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को सुख, सम्पत्ति और विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा जबकि बड़े भाई-बहनों को सम्पत्ति और ख्याति मिलेगी तथा उनके शत्रुओं की पराजय होगी। आपका उनके साथ सम्बन्ध मधुर रहेगा।

अन्तर्दशा :

केतु की मुख्यदशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपको सम्पत्ति मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी कुछ मामूली समस्याएँ तथा शत्रुओं की पराजय होगी। आगे शुक की दशा के दौरान आपको पारिवारिक सुख और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी तथा आपका विवाह होगा। सूर्य की अन्तर्दशा में सट्टे तथा बच्चों से लाभ होगा और वेदिक अध्ययन-मन्त्र में रुचि होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के दौरान जीवन का आरम्भ और माता से सुख मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा में आपको कुछ समस्या हो सकती है। गुरु की अन्तर्दशा में सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति और यात्रा होगी। इसके बाद शनि की अन्तर्दशा में जीवन-वृत्ति में सफलता मिलेगी तथा उपार्जन अच्छा होगा। बुध की अन्तर्दशा के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ मामूली समस्या, विरोधियों पर विजय और संबंधियों से लाभ हो सकता है।

**अंतर्दशा :- केतु - चन्द्र
(30/08/2025 - 31/03/2026)**

आपके लिए केतु महादशा 27/09/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में चंद्रमा अंतर्दशा की अवधि 7 मास रहेगी जो आपके लिए 30/08/2025 से प्रारंभ होकर 31/03/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मन, भावनाओं और माता का कारक है।

इस अवधि में आपका धनार्जन उत्तम होगा। घरेलू जीवन सुखी रहेगा। शिक्षा उत्तम होगी। मधुर वाणी के कारण लोकप्रिय बनेंगे। घरेलू मामलों पर धन खर्च हो सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; विरासत से धन प्राप्त हो सकता है। अतींद्रिय शक्ति का विकास हो सकता है। ज्ञानार्जन की रुचि होगी। जीवनसाथी के धन द्वारा धनार्जन कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को विरासत आदि से अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। आपके पिता के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उत्तम संबंध रहेंगे। माता के बहुत से मित्र होंगे। आपके भाई-बहनों के लिए स्पर्धा में विजय, खर्च, यात्रा, निवेश में सफलता, खुशी और ज्ञानार्जन का संकेत है। आपकी संतान प्रसिद्ध बनेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। परामर्शदाता धनी बनेंगे; आय बढ़ेगी। व्यापारियों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है; अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मुख और चेहरे की मामूली व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, दही आदि का दान करें।

**अंतर्दशा :- केतु - मंगल
(31/03/2026 - 27/08/2026)**

आपके लिए केतु की महादशा 27/09/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में मंगल अंतर्दशा की अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी जो आपके लिए 31/03/2026 को प्रारंभ होकर 27/08/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आप शत्रुओं पर विजयी रहेंगे। आय और धन में वृद्धि होगी। कार्यक्षमता बढ़ेगी। आपके किरायेदार आपसे सहयोग करेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं, यात्रा हो सकती है। अध्यात्म में रुचि ले सकते हैं। सफलता और प्रसिद्धि का संकेत है। पिता के साथ मधुर संबंध होंगे; उनसे आपको लाभ होगा।

आपके जीवनसाथी के खर्च बढ़ सकते हैं। आपके पिता कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे; उच्चपद प्राप्त कर सकते हैं। माता उत्साही होंगी; कार्यक्षमता बढ़ेगी। आपके भाई-बहनों के लिए अचल संपत्ति, उत्तम शिक्षा, परिवर्तन, अप्रत्याशित लाभ और परीक्षा में सफलता का संकेत है।

आपकी संतान की आय अच्छी होगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यों में सफल रहेंगे, आय बढ़ेगी। परामर्शदाता भाग्यशाली रहेंगे। व्यापारियों के खर्चे बढ़ सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, रोगनिरोधक क्षमता बढ़ेगी। शुभत्व में वृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

**अंतर्दशा :- केतु - राहु
(27/08/2026 - 15/09/2027)**

आपके लिए केतु महादशा 27/09/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में राहु अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की होगी जो आपके लिए 27/08/2026 को प्रारंभ होकर 15/09/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु दादा, अचानक घटने वाली घटना और भौतिक सुखों का कारक है।

इस अवधि में आपको व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। व्यापार का अचानक विस्तार हो सकता है। विदेश व्यापार संभव है। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। लोग आपकी सहायता करेंगे। उच्चपद पर आसीन हो सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। नेतृत्वक्षमता उत्तम होगी।

आपके जीवनसाथी प्रसिद्ध होंगे। आपके पिता को आर्थिक प्रगति के अवसर मिलेंगे। माता को घरेलू सुख रहेगा। आपके भाई-बहनों को मुकदमे में जीत मिलेगी, विदेश यात्रा हो सकती है, तीर्थयात्रा संभव है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, लेखन-प्रकाशन से लाभ होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी।

अगर आप सेवारत हैं तो आय बढ़ेगी। परामर्शदाताओं की आय और सक्रियता बढ़ेगी। व्यापारी खूब धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए नीले वस्त्र, सतनजा, उड़द की दाल दान करें।

**अंतर्दशा :- केतु - गुरु
(15/09/2027 - 21/08/2028)**

आपके लिए केतु महादशा 27/09/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा की अवधि 11 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 15/09/2027 को प्रारंभ होकर 21/08/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति ज्ञान, धन और संतान का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। शिक्षा उत्तम होगी। भाई-बहनों और चाचा से उत्तम संबंध होंगे। प्रभावशाली मित्र होंगे। संतान से सुख मिलेगा। विवाह हो सकता है। विवाहित जीवन सुखी रहेगा, व्यापार में लाभ होगा। संचार माध्यम और

लघु यात्राओं से लाभ हो सकता है।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली और धनी होंगे। आपके पिता की आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। माता के जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। आपके भाई-बहनों के लिए सौभाग्य और धन का संकेत है। आपकी संतान भाग्यशाली होगी, उन्हें साझेदारी से लाभ होगा। अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं की आय उत्तम होगी। व्यापारी खूब धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कानों की मामूली व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए केसर, हल्दी, चने का दान करें।

**अंतर्दशा :- केतु - शनि
(21/08/2028 - 30/09/2029)**

आपके लिए केतु महादशा 27/09/2023 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 9 दिन होगी। यह अंतर्दशा 21/08/2028 को प्रारंभ होकर 30/09/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि भाग्य और सेवा का कारक है।

इस अवधि में आप भाग्यशाली और धनी बनेंगे। धनार्जन उत्तम होगा, यात्राएं होंगी। उच्चशिक्षा में सफलता मिलेगी। छोटे भाई-बहन सुखकारी होंगे। आपका खेती से कोई संबंध हो सकता है। निवेश से लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय होगी; अधीनस्थ कर्मचारी सहयोग करेंगे। मामा पक्ष के लोगों से लाभ हो सकता है।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता के सब काम बन जाएंगे। माता को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, उनका कार्यालय उत्तम होगा। आपके भाई-बहनों के लिए साझेदारी से लाभ, आय में वृद्धि और प्रभावशाली मित्रों का संकेत है। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, धनी बनेंगे और निवेश से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो साख बढ़ेगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ेंगे। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए शनि मंत्र का जाप करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः

**अंतर्दशा :- केतु - बुध
(30/09/2029 - 27/09/2030)**

आपके लिए केतु महादशा 27/09/2023 को प्रारंभ हुई। इस महादशा में बुध की अंतर्दशा की अवधि 11 मास 27 दिन होगी जो आपके लिए 30/09/2029 को प्रारंभ होकर 27/09/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, बुद्धि, लेखन और तर्कशक्ति का कारक है।

**महादशा :- शुक्र
(27/09/2030 - 27/09/2050)**

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 27/09/2030 को आरम्भ और 27/09/2050 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है। यह मीन राशि में उच्च का और कन्या में निम्न का होता है। यह स्वभाव से एक शुभ ग्रह है जो भावनात्मक आनन्द, अच्छे स्वाद आनन्द तथा सुखमय जीवन का द्योतक है। यह विवाह का कारक भी है। आपकी जन्म कुण्डली के चतुर्थ भाव में स्थित इस ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर है और इस भाव पर इसका शुभ प्रभाव पड़ रहा है। चतुर्थ भाव माता, भवन, घरेलू वातावरण, निजी मामलों, गुप्त जीवन, वाहन, उद्यान, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, जल, दूध, नदी तथा झील का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है और भाव को प्रबलित कर रहा है जो सुख स्थान का भाव है। इसके फलस्वरूप इस दशा काल में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना नहीं होगी तथा आप सामान्य रूप से जीवन का आनन्द लेंगे।

अर्थ-संपत्ति :

शुक्र चतुर्थ भाव में भाव को प्रबलित कर रहा है। यह अचल संपत्ति और वाहन का भाव भी है। इस दशा काल में आप एक नया घर या नई गाड़ी ले सकते हैं। आपकी जीवन चर्या में उन्नति तथा आनन्द में वृद्धि होगी।


व्यवसाय :

शुक्र, एक योग कारक ग्रह, चतुर्थ भाव में स्थित है और आपकी जन्म कुण्डली के

दशम भाव को देख रहा है, जो जीवन चर्या और व्यसाय का द्योतक है। इस दशा काल में आप जमीन-जायदाद के लेन-देन में व्यस्त रहेंगे और इसी से संबंधित व्यवसाय करेंगे। आपकी माता भी आपके व्यावसायिक जीवन को विकसित करने में सहायक होंगी।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण होगा। आपके जीवन साथी आपके सहायक होंगे। आप भावुक होने के साथ-साथ धनवान, आदरणीय, और खुशहाल होंगे। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर होगा तथा आप परम्परा और मूल्यों का आदर करेंगे।



**अंतर्दशा :- शुक्र - शुक्र
(27/09/2030 - 26/01/2034)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 27/09/2030 को प्रारंभ होकर 27/09/2050 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 4 मास की होगी। आपके लिए यह 27/09/2030 को प्रारंभ होकर 26/01/2034 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, स्वयं का मकान, घरेलू वातावरण, व्यक्तिगत संबंध, वाहन, बाग-बगीचे, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, दूध, तालाब और झील आदि का प्रतिनिधि है। शुक्र विवाह, प्रेम और रति का कारक है। शुक्र शुभ ग्रह है। चतुर्थ भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपके घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। मित्रों से संबंध बेहतर होंगे। माता से मधुर संबंध रहेंगे। वाहन सुख रहेगा, जायदाद भी प्राप्त कर सकते हैं। धर्म में रुचि होगी। स्वयं को सफल महसूस करेंगे और संतुष्ट रहेंगे।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करें :

- चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं।
- कन्याओं को खीर खिलाएं।
- लक्ष्मीजी की उपासना करें।
- भोजन की पहली रोटी गाय को खिलाएं।